

केंद्रीय कार्यालय INVESTORS RELATION DIVISION Central Office

CO:IRD:2024:25:81 25th June, 2024

BSE Limited.	National Stock Exchange of India Limited.
Corporate Relationship Dept.,	Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza,
Dalal Street, Fort,	Plot No. C/1, 'G' Block,
Mumbai-400 001	Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Scrip Code-532 885	Mumbai-400 051
_	Scrip Code-CENTRALBK

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication regarding Notice of 17th Annual General Meeting of the Bank.

With reference to above, please find the enclosed copy of extract of newspaper advertisement regarding Notice of 17th Annual General Meeting of the Bank scheduled on Tuesday, 16th July 2024 published in following newspapers on 24th June, 2024

Name of Newspaper	Editions
Business Standard	English - All Editions
Business Standard	Hindi - All Editions
Tarun Bharat	Marathi – Mumbai Editions

Please take the above on your record in compliance with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Thanking you,

Yours faithfully,

For CENTRAL BANK OF INDIA

CHANDRAKANT BHAGWAT

Company Secretary & Compliance Officer

Encl :- A/a

केंद्रीय कार्यालय: चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

Central Office: Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 ईमेल/Email ID: smird@centralbank.co.in



दुरभाष/Tel.: 022-6638 7777

Adani's salary lower than execs' in FY24

Draws pay from only two of the 10 firms of the conglomerate

In the state of th 22/lakm. The total remuneration of 22/lakm. The total remuneration of the previous financial year, according to AEL's 2023-24 annual report. Besides, he drew 65.8 crore from Adani Ports and SEZ Lid (APSEZ). Adani's salary is lower than heads of almost all large family-owned conglomerates in India.

conglomerates in India. While the richest Indian, Mukesh Ambani has been forgoing his entire salary since Covid-19 broke out prior to which he had capped his remuneration at \$15 crore, Adan's remuneration is much lower than telecom czar Sunil Bharti Mittal (\$16.7 crore in 2022-23).

WHO **GETS**



PAWAN MUNJAL Executive Chairman and WTD, Hero MotoCorp



RAJIV BAJAJ Baiai Auto



CMD, Larsen & Toubro

Founder & Chairman, Adani group

CMD, Reliance Industries
• Forgoing entire salary since
Covid-19, prior to which
he had capped his

S N Subrahmanyan (₹51 crore) and Infosys CEO Salil S Parekh. Adani, who is worth \$106 billion according to the Bloomberg Billionaire Index, has been jostling Billionaire Index, has been jostling with Ambani for the spot of the richest person in Asia. He became the richest person in Asia. He became the richest Asian in 2022 but lost that position after a damning report by US short-seller Hindenburg Research wiped out almost Si50billion of market value of his group stock at its lowest point last year. He regained the top spot on two

occasions this year but again ceded the position to Ambani. Ambani is ranked 12th on the world's richest list with a networth of \$111 billion. Adani is ranked 14th.

Adanitalks cement companies' merger at investor meet

Ambuja Cements plans to consoli-

Ambuja Cements plans to consolidate all Adami group cement companies under a single entity in the medium term, according to brokerage firm Heffers, after Adam Group companies' investors' meeting it note last week, after Adam Group companies' investors' meeting in Ahmedabad on June 19.

"The company plans to consolidate all cement companies under one head in the medium term. The merger cost is not a deterrent, but the company is working on identifying the best structure in the interest of minority and other stakeholders' the note added.

ACC and Almbuja Cement were acquired by the Adami group in September 2022 for 86.4 billion. The September 2022 for 86.4 billion. The

acquired by the Adani group in September 2012 (or \$6.4 billion. The acquisition made the conglomerate the second-largest cement player in the country after UltraTech.

ACC Lid and Sangbi Industries are two cement subsidiaries, in which Ambuja Cements holds stake, along with other minority shareholders. Both entities are listed on the exchanges.

An email query sent to Adani Cement on Saturday requesting a comment on the Jefferies report and a clarification if the consolidation will include ACC, remained unanswered at the time of robot to

include ACC, remained swered at the time of going to

will include unanswered at the time of going to the press.
Ambuja Cements holds a 60.44 per cent stake in Sanghi Industries, an asset it acquired from its former promoters in the last financial year.
Ambuja also holds a 50.05 per

SHAREHOLDING PATTERN*

Stake in %
Promoters – Ambuja Cements
Promoters – others ■ FPIs ■ DIIs
Retail & HNI ■ Others





cent stake in ACC, which it has held since an earlier restructuring by for-mer promoters — Holcim Group in

2013. The shareholding figures are as of March this year. In an interview with Business Standard in August last year, Ajay Kapur, chief executive officer for the company said that there were "no plans to merge ACC and Ambuja as of now."

& ONLY. Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, is the top-ranked hospital in the USA.

2nd rights issue: Byju's moves K'taka HC against NCLT order

Beleaguered edtech firm Byly's has moved the Karnataka High Court, which is has moved the National Company Law Garden With the Second rights issue.

The plea is likely to come up for hearing on Monday.

The orders of NCLT were expected to be challenged before the National Company Law Appellate "Tribunal (NCLAT). However, Bylis' has filled a writ petition in the state of the National Company Law Appellate "Tribunal (NCLAT). However, Bylis' has filled a writ petition in the state of the National Company Law Appellate "Tribunal (NCLAT). However, Bylis' has filled a writ petition in the national Company Law Appellate "Tribunal (NCLAT). However, Bylis' has filled a writ petition in the national Company Law Appellate "Tribunal (NCLAT). However, Bylis' has filled a writ petition in the national Company Law Appellate "Tribunal (NCLAT). However, Bylis' has many petition," the order (NCLAT). However, Bylis' has many petition, and the properties of the National Company has not provided the National Comp

Sula eyes double-digit growth on premiumisation

Raising toast to 25 successful years, India's largest wine maker Sula Vineyard is eyeing a sustained double-digit growth in revenue over the next five years, buoyed by growth in the premium and elite categories and expansion of its new ranges. It was during Covid that the vineyards shifted focus to its own brands and privoted towards growing the premium and elite segment of the market. "Rather than trying to compete in the segment priced between £250 and ₹700, which is price sensitive and discount driven, we turned our focus to dominating the price segment above ₹700 and the elite segment over ₹1,000, which competes with

imported wines. It has been an incredibly successful journey over the past three years," says Rajeev Samant, chief executive officer at

Samant, chief executive officer at Sula Vineyards.

The premium and eitie section of the winery has grown at a compound annual growth rate of 15-20 per cent over the last three years.

"The segment contributes close to 80 per cent to our revenues, up from 55 per cent four years ago. It is a huge shift, Going forward, we see good double-digit growth ahead in these two segments," he adds.

While premiumisation remains a key growth driver, innovations and expansion are also on the cards for the winery to bolster the journey of sustaining double-digit growth.
The winery to bolster the journey of sustaining double-digit growth.

The winery's source range, which recently saw the addition of the

66 We have turned our focus to dominate the price segment above ₹700 and the elite segment over ₹1,000, which competes with imported wines. It has been an an incredibly successful journey over the past three years"

RAJEEV SAMANT, CEO, Sula Vineyard

source pinot noir, is poised for expansion beyond the home markets of Maharashtra and Karnataka in the coming two years.

"Demand growth in non-traditional markets is now faster than our traditional markets of Maharashtra and Karnataka. We are seeing a

strong 50 per cent growth in Delhi, more than 40 per cent growth in Rajasthan, and almost over 35 per cent growth in in UP, says Samant.
"We expect this trend of faster growth in non-traditional markets to continue, which will also impact our margins. However, that is the way to

ensure that we can grow wine as a category faster than cigarettes and beer in India for the next decade," he

heer in India for the next decade," he adds.

Wine tourism is another area of expansion Samant is focusing on, with 35 keys added in the last 10 ments, and more in the pipeline.

"For us, FY24 ended on a very strong note with close to 90 per cent occupancy levels. Wine tourism is still seasonal, and we will see occupancy cross 90 per cent in the third and fourth quarter of the year, because the still seasonal, and we will see occupancy levels with the season of the still seasonal, and we will see occupancy from the third for the ongoing financial year in Nashik.

The winery is also investing a little less than tiOo million for tourism development at the two other vine-



▶ FROM PAGE 1

B-schools...

M Balaij, group director of Corporate and Career Services at Great Lakes Institute of Management, Chennai, acknowledged the stress but remained cautiously optimistic. "There is definitely a market slowdown, It will pick up, and it is very early to comment for 2024-25 because the candemic year is just starting," he said, while adding, "It appears it may take some time to bounce back."

In the last cycle Great Jakes managed to

ing." he said, while adding. "It appears it may take some time to bounce back." In the last cycle, Great Lakes managed to maintain a 100 per cent placement rate, with participation from recruiters such as HP, EY, Deloitte, ISBG and Adobe. Technology, and banking, financial services and insurance (BFS) sectors were the major hirse, Balaij said. The offer of the highest domestic CTC(R37 lath) per annumo camerate from a multinational fintent-company (the average CTC was R1S, Itakh). "As far as IT is concerned, the number of recruiters is down, but we have gone for a lot of new companies." he added. "Though there are not of the companies in the desired of the companies of demand."

Bharathidasan institute of Management (BIM) in Thichy also went for a higher number of companies for the 2024 placement season—around 45 instead of 20-odd in the past, said Asis K Barma, the director. Recruiters, he added, are more choosy now. "Corporations that were recruiting is or 20 justudents have reduced the number to two or three," he said. "They look at the market projections, and Ithen Jake acall on the hiring pattern," he said. "They look at the market projections, and Ithen Jake acall on the hiring pattern," he said. He described this as a positive trend, which could benefit students in the long run. "Alot of companies used to hire and firm in the past," he explained. "Employees were at their mercy Since recruiters are getting more prudent, it is helping students to get into the right firm." That said, while the average CTC offered remained 12.5 lakh, the top CTC dropped from 2.5 lakh in 20.50 academic year, with the institute seeing participation from 6.0-70 companies are looking for candidates familiar with artificated intelligence (AI). "Those adapting to this little seeing are recruited and the service of the control of the control of the remained to see into the right firm." That said, while the average CTC offered remained 12.5 lakh, the cort of CAD and the control of the control of the control of the control of the cont

change will be hired. There is no slowdown in hiring. Instead, it is a restructured placement scenario," he added.

The Deloit perport highlighted that "93 per cent of the surveyed campuses emphasise the significance of technical interview performance as a pivotal criterion for placement." Skills, it said, are taking centre stage, with A1 and machine learning (ML) in engineering, social selling in management and computational biology in pharma being the most indemnad skill segments.

Outside the traditional campus placements platforms like PickMyWork, which distribute financial products through a gip worker network, have observed a significant increase in work seekers. "From last year to this, we have seen a 26-80 per eem igunp in interested profiles. By June-Sitty, the number is expected profiles. By June-Sitty, the number is expected profiles. By June-Sitty, the number is expected profiles, by June-Sitty, the number is expected in the profile of the profil

opportunities, with some banks and financial institutions even pushing the joining dates for full-time offers to February and March of 2025, he added.

The New Delhi-based gig economy platform attracts more individuals from lower-tier institutes compared to top business schools. SP Jain Institute of Management & Research (SPIIMR), which is preparing for its autumn internship (September to October), is, however, optimistic about the opportunities ahead.

is, however, optimistic about the opportunities ahead.

Bhishm Chugani, director of Career Services and Alumni Relations, said last year's autumn internship programme had a 50 per cent PPO conversion rate, and that the students had the industry knowledge and expertises that top recruiting firms seek.

Some IIMs, however, failed to maintain their 100 per cent placement record in a historic first, said Jaideep Kewalramani, head of Employability Business and chief opporting officer at TeamLease EdTech, a Mumbal-based firm that works on improving employability. And while the range of packages remained by and large the same as last year, the median was lower by 15 to 25 per cent, he said.

This, he added, was prompting Pschools to aggressively adapt their curriculum to align with changing industry demands. IIM Raipur, he said, is an example: it is designing program of the control of the programment of the control of the control

Many IIMs, he said, are focusing on digital, AI, and emerging sunrise sectors, incorporating more live projects, work-integrated programmes, and industry collaborations to ensure job readiness.

П muthoot

MUTHOOT MICROFIN LIMITED

Nature of Accounts ("Stressed Assets")	No. of A/c's	Aggregate Principal O/s as on 30.04.2024	Reserve Price / Binding Offer	Starting Price for counter bid with 5% mark-up	Term of Sale	
Portfolio of Unsecured Stressed Loans	74,546	Rs.149.81 crs	Rs. 67.50 crs	Rs. 70.87 crs	Cash + Security Receipts	

ested parties may note the following in respect of the sale

The interested parties may note the following in respect of the sale North Control of the Contro

sale process. The interested parties shall indicate their interest by submitting their Binding Bid latest by 12:00 pm noon-June 28, 2024. MML reserves the right to terminate the sale/acuation process at am point of time without prescribing any reason thereof, at its own discretion. The decision of MML, shall be final and binding in this discretion. The decision of MML, shall be final and binding in this

Central Office: 09th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021
Tel no. 022 66387575 Email id: investors@centralbank.co.in | Website: www.centralbankofindia.co.in NOTICE OF 17th ANNUAL GENERAL MEETING OF BANK

Notice is hereby given that the 17th (Seventeenth) Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Central Bank o ndia will be held on **Tuesday, 16th July, 2024 at 11.00 a.m** (IST) through video Conferencing (VC) or Other Audio Visua Means (GAVM), to transact the following business:

- eans (JANM), to transact the following business.

 To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Standalone and Consolidated Profit and Luss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024 the report of the Banard of Directions on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors "Sport on the Balance" bester and Accounts.
- To approve the appointment of Smt. Charulatha S Karas RBI Nominee Director on the Board of the Bank
- 8. To approve the appointment of Shri. Mahendra Dohare as Executive Director on the Board of the Bank 1. Election of One Shareholder Director.
- 5. To consider raising of Equity capital aggregate up to Rs.5000 crore through various modes such as QIP/FPO/Right NOTES:

OTES:

MILLIANG OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (DAVM): Pursion to the Chemical Circular No. 197,7023 dated 2515 September, 2022 read with other relevant Circulars Issued by Ministry of Begrated Files (See September, 2022 read with other relevant Circulars Issued by Ministry of Begrated Finds) (SEB), the Bank's Commenting the 70th Annual Ceneral Meeting (EAM) through Wideo Conferencing (VC) (other Audion (SEB)), the Bank's Commenting the 70th Annual Ceneral Meeting (EAM) through Wideo Conferencing (VC) (other Audion (SEB)), the Bank's Commenting the 70th Annual Ceneral Meeting (EAM) through Wideo Conferencing (VC) (other Audion (SEB)), the Bank's Commenting (SEB), the Bank's Commenting (SEB) (the Bank's Commenting (SEB)), without the physical presence of the Members Hence Members can attend and participate in the ensuing Advitor (SEB) (the SEB) (SEB) (see The SEB) (SEB) (see The SEB) (see The

Remote F-Vorling: In compiliance with Regulation Ad(1) of the SER (Itsking Obligations and Disclasure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Ride 20 of the Companies (Management and Administration) Russe, 2014 the Bank is pleased to ofter encode evoting Facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made evolution facilities and another than the second processor of the second

Bankwin Linkthime India PLC Limited. Registral and Share Transfer Agent of the Bank to Taclitate remote e-words. The remote e-voting period will commence from Pfday, 126 bill, 2024 at 10.00 AM and ends on Monday, 15th July, 2024 at 0.5.00 PM. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in demarketialized from as on the cut-off dariet in Euroskay, 100 bill, 2024, 2018 begilbe frov voting on agendal keen 1, 2, 3 is 3 and shareholders of the Bank holding storace either in physical form or in centerialized form as on the cut-off dariet is Pfday, 14th June, 2024. Shall be eligible for voting on agendal keen cut-off dariet is Pfday, 14th June, 2024. Shall be eligible for voting on agendal keen cut-off dariet is Pfday, 14th June, 2024. Shall be eligible for voting on agendal keen to reflect the shall be shall be shall be a shall be a shall be shall be a shall be a shall be a for the best found of shall be for the best found of shall be for the best found of shall be s

In case, the shareholders/ members holding securities in physical mode/ institutional shareholders have any queries in sixues regarding evolting please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and instancte e-Volting manual available at https://instancte.inkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@ linkintime.co.in or Callus-Tel-022-4998000.

Inflantations control Call less - Velo (22 - 49 foldotto).

APPOINTMENT OF AN INTROMESSES REPRESENTATIVE: No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the Salaraholders of termal Bank of india as the duly authorized representable relation appointing him as a sub-yl authorized representable, received the case of the Salaraholders of the Salarahol

The consolidated voting Results on agenda items shall be placed on the website of Bank and Stock exchanges within two (2) working days of the AGM

Date: 22™ June, 2024 Place: Mumbai























बदलें परीक्षा का तरीका और गड़बड़ी करने वालों को मिले कड़ी सजा

परीक्षाओं को ठेके पर देना बंद हो

परीक्षाओं में हो रही लापरवाही का प्रमुख कारण विभिन्न कंपनियों को परीक्षा लेने का काम ठेके पर दिया जाना भी है। यदि इन प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियां रोकना है तो इन परीक्षाओं को ठेका प्रणाली से कराने पर रोक लगाकर एक सशक्त संस्था बनाकर पारदर्शिता और र्डमानदारी से परीक्षाएं करानी होंगी। तभी इन परीक्षाओं में छात्रों का भरोसा और विश्वास कायम रखा जा सकेगा।

परीक्षा प्रक्रिया बने पारदर्शी

प्रवेश परीक्षाओं में गडबडियों को रोकने के लिए परीक्षा . संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की आवश्यकत है। सभी जानकारियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना और परीक्षार्थियों को समय-समय पर नई जानकारियों को देना चाहिए। परीक्षा के सभी चरणों में निष्पक्षता की पूरी गारंटी देनी चाहिए। प्रश्न पत्रों की तैयारी, उनका प्रस्तुतीकरण और ग्रेडिंग प्रक्रिया में कोई भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए।

डॉ. अलका सिंह

पारदर्शिता और सख्त कानुन की जरूरत

परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने के लिए सभी प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता सनिश्चित करने के साथ सरल कानून बनना चाहिए क्योंकि सख्त कानून के अभाव में ही गड़बड़ियां होती हैं। जिन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड से फॉर्म लिंक नहीं हैं, उनकी परीक्षा अलग परीक्षा केंद्र पर आयोजित कराकर इन पर खास निगाह रखी जाए। परीक्षा केंद्र का चयन काफी सावधानीपूर्वक करना होगा। सुधीर कुमार सोमानी

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा हो मजबूत

प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए हमें ज्यादा जिम्मेदार त्वरित खुफिया तंत्र वाली व्यावसायिक व तकनीकी रूप से समर्थ ऐसी एजेंसी की सेवा लेनी चाहिए। पेपर चार सेट से लिया जाए और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण गंभीरता से किया जाए। नकल में सहयोग देने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जाए और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा मजबूत हाथों में दी जाए।

परीक्षा प्रणाली को गोपनीय रखा जाए

प्रवेश परीक्षा में होने वाली गडबडियां रोकने के लिए अवस्य तरिक्षी चे होने परिक्षा प्रणाली को गोपनीय और निष्पक्ष बनाया जाए। परीक्षा के प्रारंभिक से अंतिम चरण तक पूर्ण ईमानदारी से कार्य किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रवेश परीक्षा के लिए बनाई गई समिति और इसके सदस्यों की गतिविधियों पर गोपनीय तरीकों से कड़ी नजर रखना चाहिए। गोपनीयता भंग करने वालों को कड़ी सजा दी जाए।

परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की जरूरत

प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियां रोकने के लिए इन्हें पारदर्शी बनाना होगा। इसके अलावा राज्यों की इन्ह पारदशा बनाना हागा। इसक अलावा राज्या का भागीदारी रखनूर, ग्रामीण बिवाधियों को जरूरते पर भागदेवरी रखनूर, कांलिजों की संख्या बदाकर और इसकी प्रक्रिया में निरंतर सुधार करके गड्डाईड्यों को रोका जा सकता है। अन्य देशों में होने बाली परीकाओं के तोक का अध्ययन करके उसे यहां अपनाया जा सकता है।

छात्रों को मिले अलग-अलग प्रश्न पत्र

परीक्षाओं में धांधली का प्रमुख कारण पेपर लीक होना, ग्रेस मार्क्स या कॉपी कोरी छोड़कर आ जाना जिसे बाद में सही उत्तर के साथ गिरोह से जुड़े उच्च शिक्षित प्रोफेसर भर सकें। अतः प्रश्न पत्रों के चयन की प्रक्रिया को ही अत्याधुनिक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस प्रकार सेट किया जाए कि प्रत्येक छात्र को एक ही विषय के अलग-अलग प्रथम पत्र मिले।

सभाष बडावन वाला

सख्त कार्रवाई से रुकेंगी गडबडियां

प्रतियोगिता परीक्षाओं में गडबड़ियों को रोकने के सरकार प्रतिवागिता परिशीजा में महबाइया की शंकन के सरकार के प्रायास के मत्ववृद्ध इन्हाड़ी हो राहि हैं। गुड़बड़ी तभी रक सकती है जब गड़बड़ी करने वाले लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाई हो कह सुरा कोई ऐसा करने के बारे न सांचा इसके किसी भी प्रतिवागिता में कोई गड़बड़ी तो उससे सुंबंधित नीचे से तकर उत्पर तक सभी लोगों को उससे सुंबंधित नीचे से देनकर उत्पर तक सभी लोगों को नौकरी से हटा दिया जाए और इसकी जांच लंबी न चले। राजेश कुमार चौहान

पेपर कई जगह से बनाया जाए

प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियां रोकने के लिए कड़े से कड़े नियम बनाने होंगे। पेपर सेटिंग कई जगह से करनी होगी। परीक्षा से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों को यह शपथ लेनी होगी कि उनके परिवार या रिश्ते का कोई व्यक्ति परीक्षा में नहीं बैठ रहा है ? विद्यार्थियों को भी यह शपथ लेनी होगी कि उन्होंने कोई कानून का उल्लं है, नहीं तो वे कड़ी सजा के भागीदार होंगे।

प्रदीप गौतम् सुमन

श्रेष्ट पत्र

गोपनीयता बरती जाए

प्रश्न पत्र बनाने से लेकर छपने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम बहुत गोपनीय तरीके से होना चाहिए। एक ही विषय के प्रश्नपत्र चार सेट में तैयार करने चाहिए और प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन होनी चाहिए। किस केंद्र पर कौन सा सेट जाएगा यह सिर्फ परीक्षा के दिन ही तय हो। यदि कोई प्रश्न पत्र लीक भी होता है तो उसे परीक्षा में भेजने से रोका जा सकता है।

डॉ. उमेश मित्तल

शिक्षा माफियाओं पर नकेल जरूरी

प्रवेश परीक्षाओं में तमाम लीक प्रूफ दावे के बाद भी अगर गड़बड़ियां नहीं रुक रही हैं तो स्पष्ट है कि शिक्षा माफियाओं की पहुंच ऊपर तक है। चंद रुपये के लिए अभ्यर्थियों की वर्षों की मेहनत के साथ खिलवाड शर्मनाक एवं मेधा आधारित समाज की अवधारण करारा तमाचा है। ऐसे में शिक्षा माफियाओं पर सख्ती से नकेल कसी जाए।

डॉ. हर्ष वर्द्धन

दोषियों को न बख्शा जाए

गलती करने वाले, लापरवाह, गैर जिम्मेदार और पेपर लीक करने वालों को काननन कड़ी सजा मिले। परिणाम में पारदर्शिता हो। प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन हो और पेपर देने के तुरंत बाद प्राप्तांक स्क्रीन पर दिखे। विवादास्पद प्रश्नों का समावेश न हो। गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। पेपर लीक होने पर पुनः परीक्षा आयोजित हो। मोहित सोनी

ह र सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ट्री में आपके विचारों को प्रकाशित करते हैं। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय। दस्य बार का विषय है :

खाद्य महंगाई पर कैसे लगे लगाम ?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर- 011-3720201 या फिर ई-मेल करें

goshthi@bsmail.in

इसके ताक हो। जो भारतियाँ के लीक करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन पेपर खरीदने वाले छात्र, अभिभावक और अन्य उतने ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए इनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जाए कि वे इन्हें खरीदने से डरें। पेपर इस तरह बनाया जाए कि छात्रों को अलग-अलग पेपर मिले या कम से कम 60 फीसदी प्रश्न अलग होने ही चाहिए। तकनीक के जमाने में ऐसा करना मुश्किल भी नहीं है जब छात्रों को अलग-अलग प्रश्न मिलेंगे तो पेपर लीक करने का कोई फायदा नहीं होगा और इन्हें लीक करने पर अपने आप रोक लग जाएगी। पेपर बनाने से लेकर इन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने तक पारदर्शिता और गोपनीयता बरतना भी जरूरी है। बातचीतः रामवीर सिंह गर्जर

राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया मेडिकल स्टडेंट्स एसोसिएश-

गडबड़ी से संगठित अपराध की तरह निपटें

परीक्षाओं के पूर्वों का लीक होता

अब एक लाइलाज बीमारी की तरह हो गया है जिसके सबसे बड़े शिकार हमारे युवा हैं। यह एक संगठित अपराध है और इससे उसी तरह निपटना होगा। मेरी नजर में इससे निपटने के लिए एक विशेष एजेंसी

बकौल विश्लेषक

छात्रों को अलग-अलग पेपर मिले

परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए परीक्षा केंद्र के मालिक ज्यादा

जिम्मेदार होते हैं। इसलिए इन पर संख्त नजर रखी जाए और गड़बड़ी

होने पर उनके खिलाफ कडी कार्रवाई की जाए। परीक्षा में गड़बड़ी की मूल समस्या पेपर लीक होना है।

इसके लीक होने का पता लगने पर



गठित करन को आवश्यकता ह जिसमें विषय विशेषज्ञ, पुलिस के आला अधिकारी और साइबर सुरक्षा के जानकार हों। पेपर लीक के ज्यादातर मामलों में हम पाते हैं कि एक ही अपराधी या समृह बार-बार ऐसा करता है। ऐसे आदतन अपराधियों और गिरोहों पर निरंतर नजर रखना जरूरी है। ये गिरोह अंतरराज्यीय होते हैं और इन्हें पकड़ना किसी एक राज्य की पुलिस के बस का काम नहीं है। ऐसे में इसके लिए एक केंद्रीय कमांड की आवश्यकता होगी। यह लालच से जुड़ा अपराध है और इसे दंड के भय से ही नियंत्रित किया जा सकता है। परीक्षा कराने की एजेंसियों में नियुक्त होने वाले अधिकारियों की पृष्ठभूमि की भी गहन जांच होनी चाहिए। बातचीतः संदीप कुमार

व्हिसलब्लोअर और राजनीतिक कार्यकर्ता

पुरस्कृत पत्र

परीक्षाएं सरकारी संस्थाओं में ही वीडियोगफी के साथ हों

शेर सिंह मेरूपा लाहौल

पुरस्कार राशि 500 रुपये

केन्द्रीय कार्यालयः ०९ वीं मंजिल, चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०००२१ टेलीफोन न. ०२२ ६६३८७७७५ इंग्लेट :investors@centralbank.co.in | वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in

१७वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना सूचित किया जाता है कि सेम्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधास्कों की 17वीं (समहवीं) वार्षिक अन बैंकफ (एजीएम) नंगनवार, 16 जुलाई, 2024 को सुबह 11.00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (बीसी) या अन्य ऑडियो विजुजल माध्यम (ओएचीएम) के माध्यम से निम्नलिसित व्यवसायिक चर्चाओं के लिए ान पर अपने पर प्रतिकार किया परीका एकला और समीकत तुलन पत्र, 31 मार्च 2024 को समात वर्ष के लिए बैंक के एकल और समीकत लाभ और हानि खातें, इस अवधि में बैंक के कामकात और गतिविधियों पर निदेशक मेंडल की दिपोर्ट और तुलन पत्र और खातों पर लेखा परीकारों की दिपोर्ट पर चर्चा, अनुनोदन तथा इन्हें स्थीकार करना.

सिनाई में मिटिंग के की (मुक्ताहरूत पायिक और प्रव्यावक्या) आवश्यवकारी विज्ञानम 2015 के विज्ञानम 44(1) के अपूर्णना में, रीला कि कामी प्रकार पर प्रवालन जिलाय 2014 के जिलाय 20 के वाया मंत्रीचीत विज्ञानम के विज्ञान के प्रवास के प्रमान में कह पूर्ण जिलाई में में प्रवास प्रवास की आ रही है, वार्कि स्वरस्पण आपनी को को इमेरा विज्ञान स्वर्ण में दे पार किलों. ई मेरी पर की सुवास के लिए बैंक द्वारा निक इम्बारक इंडिया प्रवास की आ इसे ही मिटिंग, वे के की प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास की प्रवास के प्रवास की प्रवास के प्या के प्रवास के प

यदि शेयरधारकों/ भौतिक रूप में प्रतिभृतियां रखने वाले सदस्यों/ संस्थागत शेयरधारकों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न अथवा समस्या है, तो

कृपया सहायता अनुभाग के अंतर्गत https://instavotelinkintime.co.in पर उपलब्ध सामान्यतः पूठे जाने वाले प्रश्न ('एफएवथू') एवं इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें या enotices@linkintime.co.inपर ईमेल करें या हमें कॉल करें-. टेलीफोन: 022 - 49186000. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्तिः कोई भी व्यक्ति सेन्द्रल बैठ औक इंडिया के संबन्धारकों की किसी भी बैठक में किसी कंपनी के विधियत अधिकृत प्रतिनिधि के स्व में भाग लोग याची दे लोग कावकार बीर मा, मह तक कि में विविधा अधिकृत प्रतिनिधि के पर में मिल्युक्त बोत प्रसाद की एक प्रति होने से बेठक के अध्यक्ष हुना सम्ब प्रति के रूप में स्वाणित किया गया है। केवा की विधारित विधि से कम से कम पार्ट दिन पूर्व असीत गंक ११ जलाई, २०२४ को शाग ५.०० बजे या उससे पहले बैंक को ई-मेल के माध्यम से investor@centralbank.co.in पर प्रेषि

 शेयस्थारकों के रिमस्टर का बंद होना: बैंक के शेयरधारकों का रिमस्टर तथा बैंक की शेयर हस्तांतरण बहियां बुधवार, दिनांक 10 मुलाई, 2024 से मंगलवार, दिनांक 16 मुलाई, 2024 तक (दोनों दिन सिम्मिलत) बंद रहेगी. कारोवार, Conta के जुराई, 2024 का Continent सामांगांव पर Ecci.

व पार्थिक अपने के प्रतिनिक्त की महामा व स्थित पर देवा 22 अने हमें वार्षिक दियों की इलेक्ट्रॉकिंग अति, जिसमें अगय वार्ती के साध-द चोंडियां कोकिंतिम् (दोनों) या अन्य अंतियां विद्वास्त्र पार्था को प्रतिन्ता से कार्यक्र स्व कोड़ एडामिक्ट) में कार्य कोड़ी की प्रतिना स्टोक, उन्ह वारिक अमरिक में ई और (प्रतिन्द के दौरा आदि महिलाई, दिक के स्वी में स्थापनार्थ जिसमें की में मार्थी के स्वी अपने स्वी की स्वी स्वा अपने की स्वी प्रतिना स्वा अपने की स्वी प्रति न स्वित्व स्वा अपने स्वी अपने स्वा अपने स्वी अपने स्वा अपने स्वी अपने स्वा अपने स्व अपने स्व अपने स्वा अपने स्वा अपने स्व अपने स्व

7. एजेंडा मदों पर समेकित वोटिंग परिणाम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दो (२) कार्य दिवसों के भीतर बैंक एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएंग

. हैंक के बोर्ड सदस्यों में भारतीय रिजर्व हैंक नामित निदेशक के रूप में श्रीमती चारुलता एस कर की नियक्ति को अनमोदन करना,

. वयू आईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू जैसे विभिन्नतरीकों से र 5000 करोड़ तक की इविवेटी पूंजी जुटाने पर विचार करना. ---वीडियो कॉनक्रेसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम का आयोजनः कॉपीरेट कार्य मंत्राल बाजबंध कारणारूप्त (बाजा भूज आजना बाजुरूप्त वार्यव्या आर्थावारण) कारणारूप्त हराकारण आर्थाय वार्याय आर्थाय वार्य (ब्लामीट) हमा जाने अपन आरोक्त परिवारण कारणार्थिय कारणार्थिय कारणार्थिय वार्याय वार्याय वार्याय अराव्याय वार्याय हामानचा परिवारण संख्या १९४२,०२३ विचार ५५ विचारण २०२३ के अतुमार, केन सर्व्या की भीतिन आर्थियों के किन वार्याय व विभी अपने आरोक्ति प्रकृत मार्याय में आराज्या की मार्याय में वार्याय के बाति कारणार्थिय वार्याय कारणार्थिय कारणार्थ्य कारणार्थिय कारणार्थिय कारणार्थिय कारणार्थिय कारणार्थिय कारणार्थिय कारणार्थिय कारणार्थ्य कारणार्थिय कारणार्थिय कारणार्थ्य कारणार्थ्य कारणार्थिय कारणार्थ्य कारणार्थ्य

बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री महेंद्र दोहरे की नियुक्ति का अनुमोदन करना.

एक भेरारपारक मिटेशक का चनात

दिनांक: २२ जून, २०२४ स्थान: मुंबई

कर्द प्रथम प्रज ब्रमाए जाएं

गड़बड़ी रोकने के लिए परीक्षाओं को सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थाओं में ही प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने के लिए आवश्यक है कि परीक्षा संचालन में संलिप्त सभी लोग ईमानदारी से काम करें और हर क्षेत्र के आयोजित किया जाना चाहिए। परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लगानी चाहिए। परीक्षा केंद्रों में तैनात कमी अलग-अलग पराक्षा कन्ना जराग-जराग राज्यों से होने चाहिए। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित देखरेख के लिए पर्यवेक्षक की तैनाती होनी चाहिए। परीक्षा केंद्रों में जैमर कुशल एवं विश्वसनीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। परीक्षा के लिए कई प्रश्न पत्र सेट बनाए जाएं. की सुविधा हो ताकि उस परिधि में सभी कठिनाई स्तर केंद्र पलिस साइबर सेल के नियंत्रण मे में परीक्षा से तीन दिन पहले मोबाइल होना चाहिए और ड्रोन से परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बृजेश माथुर

दोषी छात्रों को भी हो सजा

दसवीं, बारहवीं की परीक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बोर्ड हैं। लेकिन प्रवेश परीक्षाओं का जिम्मा एनटीए जैसी एजेंसियों के पास है। प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी बोर्ड का गठन हो। परीक्षा कराने वाले गड़बड़ी करें तो उनको सस्त सजा दी जाए और दोषी छात्रों को आजीवन प्रवेश परीक्षाओं या नौकरी की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जाये। इसके लिए छात्रों का आधार आधारित पंजीकरण हो।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी

कानन का डर पैदा हो

प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के लिए अपराधियों में कानून का डर पैदा करना जरूरी है। सरकार के कानून ऐसी गतिविधियों के मामले में लचील हैं।जिन्हें और कड़े करने की जरूरत है। अपराधियों को संरक्षित करने वाले राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों को भी खोजने के लिए विशेष तंत्र विकसित करने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की निगरानी में शासकीय

post-Buyteck public amountment ("Post-Buyteck public amountment") is being made pursuant to supplied the public amountment ("Post-Buyteck Public Announcement") is being made pursuant to supplied the public amountment ("Post-Buyteck Public Announcement") is being made pursuant to supplied the public amountment of the public amountment of the public amountment of the public supplied to the public amountment of the public supplied to the public amountment of the public supplied to the public supplied supplied to the public supplied supplied

A7,000 (Three Laths Seventy Thousand) Equity Shares were bought back pursuant to the Buyback, at a price of ₹4,450 (Rupees Four Thousand Four Hundred and Fifty Only) per Equity Share.

The total amount utilized in the Buyback was ₹164.55 Crores (Rupees One Hundred Sixty Four Crores and Sixty

Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:						
Category	Number of Equity Shares available for Buyback	Total Number of Bids received in this Category	Total Equity Shares bid for in this Category	Total valid Bids received in this Category	Total valid Equity Shares received in this Category**	No of times (total valid equity shares received to the total no. of Equity Shares proposed to be bought back)
	(A)		(B)		(C)	(C/A)
Small Shareholders	55,500	75,550	1,70,427	75,550	1,70,093	3.06
General	3,14,500	2,121	47,56,576	2,121	47,54,498	15.12
Not in Master File*		270	1,572	-		

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

	(₹ in L				
Particulars	Pre-Buyback	Post Buyback*			
Authorised Share Capital:					
5,00,00,000 equity shares of ₹5 each	2,500.00	2,500.00			
Total	2,500.00	2,500.00			
Issued, Subscribed and Paid-Up Capital:					
4,18,28,297 equity shares of ₹5 each	2,091.41				
4,14,58,297 equity shares of ₹5 each		2,072.91			
Total Paid-Up Capital	2.091.41	2.072.91			

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buy Back	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of the total posi Buyback Equity Share capital of the Company*
1	Anand Rathi Financial Services Limited	63744	17.23	0.154%
2	Anand Rathi	47945	12.96	0.116%
3	Quant Mutual Fund - Quant Small Cap Fund	20060	5.42	0.048%
4	Pradeep Kumar Gupta	14170	3.83	0.034%
5	Priti Pradeep Gupta	8512	2.30	0.021%
6	Supriya Rathi	8454	2.28	0.020%
7	Feroze Azeez (Azeez Family Trust)	7780	2.10	0.019%
8	Feroze Azeez	7017	1.90	0.017%
9	Canara Robeco Mutual Fund A/C Canara Robeco Small Cap Fund	6611	1.79	0.016%
10	SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund	5894	1.59	0.014%
11	Pradeep Kumar Gupta HUF	5738	1.55	0.014%
12	Navratan Mal Gupta HUF	5508	1.49	0.013%
13	Jaipur Securities Private Limited	4820	1.30	0.012%
14	Vanguard Total International Stock Index Fund	4162	1.12	0.010%
15	Invesco India Flexi Cap Fund	4046	1.09	0.010%
16	Munix India Pvt	3820	1.03	0.009%
17	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, A Series Of Vanguard International E	3703	1.00	0.009%

# Subject to exanguisminem or 3,70,000 Equi	y onares.				
 The shareholding pattern of the Compar 2024) and after the Buyback is provided 		ack (as on the Rec	ord Date, i.e., N	londay, June 03,	
Particulars	Pre-l	Buyback	Post B	uy Back*	
	Number of Equity Shares	% to the existing Equity Share Capital	Number of Equity Shares	% to the existing Equity Share Capital	
Promoter and Promoter Group	2,00,88,981	48.03	1,99,35,765	48.09%	
Foreign Investors (including Non-Resident Indians, Fils, FPIs and Foreign Mutual Fun	21,13,779 ds	5.05			
Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions and Insurance Companies	35,69,312	8.53	2,15,22,532	51.91%	
Other (public, Bodies Corporate etc.)	1,60,56,225	38.39			
Total	4 18 29 207	100.00%	4 14 59 207	100.00%	

4,18,2 ant of 3,70,000 Equity Shares. MANAGER TO THE BUYBACK



For and on behalf of the Board of Directors of Anand Rathi Wealth Limited

77,941 49,28,575 77,671 49,24,591



🕨 थोडक्यात

महापालिकेच्या अर्थसाहाय्यातून बचत गटांची रोजगारनिर्मिती

मुंबई : मुंबई महापालिकेने अर्थसाहाय्य करून महिला बचत गटांना वेगवेगळ्या उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी वेळोवेळी प्रोत्साहन दिलेले आहे. आता महिला बचत गटांनी तयार केलेली उत्पादने ग्राहकांना ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत, महापालिकेने दिलेल्या संकेतस्थळावर दररोज नवनवीन उत्पादनांची भर पडत असून महिलांना रोजगार मिळत आहे. घरगुती वापरातील वस्तू, सुशोभीकरणाच्या वस्तू, सौंदर्य प्रसाधने, पर्यावरणपूरक वस्तूची निर्मिती या महिला बचत गटांकडून केली जाते. बचत गटातील महिलांना स्वतःच्या पायावर उमे राहण्यासाठी त्यांनी तयार केलेली उत्पादने https://shaeshop.com या संकेतस्थळावर खरेदी करून आपणही महिला सक्षमीकरणाला हातभार लावू शकता, असे आवाहन पालिकेने समाजमाध्यमांवर केले आहे

खेरवाडी येथे आज २०० बहावा वृक्षांची लागवड

पूंबई : मुंबई महानगराचे पर्यावरण संतुलन टिकवून राहण्यासाठी महापालिका सतत नवनवीन उपक्रम राबवित असते. अशाच एका उपक्रम अंतर्गत महापालिका वृक्ष प्राधिकरण आणि 'मेक अर्थ ग्रीन अगेन फाउंडेशन'च्या सहकार्याने खेरवाडी, वांद्रे येथे पश्चिम दुतगती महामार्गालगत सोमवार, दि. २४ जून रोजी २०० बहावा वक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे बहावा बृक्षाची लागवड करण्यात येणार आहे. अभिनेता अक्षय कुमार आणि मुंबई महापालिका आयुक्त 'यूषण गगराणी यांच्या हस्ते तोमावारी सकाळी १ वाजता हे बृक्षाचोपण पार पढणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून अभिनेता अक्षय कुमार हे त्यांचे दिवंगत वडील हरी ओम भाटिया आणि आई अरुणा भाटिया यांना श्रद्धांजली वाहणार आहेत. यावेळी महापालिकेचे अधिकारी आणि फाउंडेशनच्या डॉ. अनुषा श्रीनिवासन अय्यर आदींसह महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत

महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर मेटल डिटेक्टर

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयासः मुंबईतील ५० रुग्णालये, महाविद्यालये या ठिकाणांना एका अज्ञात व्यक्तीने बॉम्बने उडवण्याची धमकी बुधवार, दि. १९ जून रोजी दिली. ईमेलद्वारे ही धमकी देण्यात आली आहे. ईमेल पाठवणाऱ्याने रुग्णालयांच्या बेड आणि बाथरुमच्या खाली बॉम्ब ठेवून रुग्णालय उडवण्याची धमकी दिली आहे. मुंबईतील ५० हून अधिक हॉस्पिटल्सना यासंबंधीचा ईमेल आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या मुख्यालयाच्या हेरिटेज व विस्तारित इमारतीच्या पुढेशद्वारावर नवीन 'मेटल डिटेक्टर' बसवण्यात आले आहे. तसेच येत्या काही दिवसांत 'बॅग स्कॅनर'ही बसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे सामानाची तपासणी जलदगतीने होणार आहे.

मध्य रेल्वेच्या 'टास्क फोर्स'ला प्रवाशांचा प्रतिसाद

मुंबई : लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आणि झीरो तक्रार मोहीम यशस्वी करण्यासाठी आता मध्य रेल्वेला यश येते आहे. मध्य रेल्वेच्या मंबर्ड विभागाने उपनगरीय सेवांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी 'एसी' आणि 'अप्पर क्लास टास्क फोर्स' सुरू केले. या 'टास्क फोर्स'निर्मितीचा उद्देश राखीव डब्यांमध्ये अनियमित प्रवेशाला आळा घालणे आणि 'एसी' लोकल आणि 'फर्स्ट क्लास कोच' प्रवाशांचे मानक राखणे आहे. दरम्यान, मध्य रेल्वेने दि. २५ मे रोजी हा उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमांतर्गत तक्रार नोंदविण्यासाठी ७२०८८१९९८७ हा 'व्हॉट्सॲप' तक्रार क्रमांक सुरू केला. या नंबरवर येणाऱ्या प्रवाशांच्या समस्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी १४ कर्मचारी सदस्यांचे विशेष पथक तैनात करण्यात आले आहे. या नावीन्यपर्ण उपक्रमामळे प्रवाशांना तकार नोंदवता येते तसेच गर्दीच्या वेळेत आणि च्या काळात तत्काळ मदत मिळण्याची

'गावडे रुग्णालय' महापालिकेने ताब्यात घ्यावे

सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद साटम यांची आयुक्तांकडे मागणी



मुंबई, दि. २३ : » सुप्रीम मस्कर « विलेपार्ले पूर्वेकडील महापालिकेच्या राखीव 'मूखंडावर असलेल्या 'बाबासाहेब गावडे रुग्णालया'च्या नूतनीकरण प्रस्तावावरून वाद निर्माण दिलेल्या रुग्णालयाबाबत गेल्या १२ वर्षांत अनेक तक्रारी महापालिकेत दाखल झाल्या आहेत. दरम्यान, आता कोणतीही परेशी माहिती नसताना

कंपनी आणि खासगी 'स्ट्रक्चर अभियंत्याविरोधात कठोर कारवाईची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद साटम यांनी महापालिका आयुक्त भूषण

गगराणी यांच्याकडे केली आहे. यापूर्वीही नोव्हेंबर २०२२ मध्ये साटम यांनी रुग्णालयातील कथित अनियमिततेविरोधात के लेल्या तकारीनंतर महापालिके च्या मालमत्ता विभागाकडून रुग्णालयाला आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला होता.

मराठा मंदिर संस्था आणि परांजपे ट्रस्ट यांच्यात झालेला करार रद्व करून महापालिकेने गावडे रुग्णालय ताब्यात घ्यावे. ज्यामुळे विलेपार्ले येथील नागरिकांना न्याय मिळेल. - प्रदीप वेदक, माजी नगरसेवक

पुन्हा एकदा तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेऊन नियमानुसार कारवाई केली जाईल.

 मनीष वळंजू, साहाय्यकः आयुक्त, के/पूर्व

मेडिकल स्टोअर्स, पूर्वपरवानगी न घेता अंतर्गत फेरबदल केलेली अनधिकृत कामे, अन्नपुरवठादाराकडे विहित परवाना नसणे, असे गंभीर

रुग्णालयाच्या बांधकामात अनिधकृतपणे अनियमित फेरफार केले आहेत. ते नियमित करण्याकरिता दंद आकारून

नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्याची कारवाई विशेष कक्षात सुरू आहे. दरम्यान, तक्रारदाराने सवलतीच्या दरातील उपचारांसंदर्भात केलेल्या तकारी आरोग्य विभागाशी निगडित

– ललितकमार शाह. साहाय्यक अभियंता (मालमत्ता)

आले आहेत. तसेच संबंधित संस्थ रुग्णालय घशात घालू शकते. त्यामुळे संस्थेचा नूतनीकरण प्रस्ताव तत्काळ रद्द करून रुग्णालय महापालिकेने ताब्यात घ्यावे. अर्श विनंतीही तक्रारदार साटम यांनी केली आहे.

बाजप्र अनुस् हिंदू धमीसाठी लढणारे

वाददिवसाच्या

leg trotlend organic

वीरचंद राघव गांधी यांचे घर हा वारसा, तो नष्ट होऊ देणार नाही : मंत्री लोढा

'म्हाडा'च्या कंत्राटदाराला घेतले फैलावर



मंबर्ड. दि. २३ : प्रतिनिधी

शिकागो येथील ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार राहिलेल्या दिवंगत वीरचंद राघव गांधी यांचे घर हा वारसा आहे. तो आम्ही नष्ट होऊ देणार नाही. हे आम्ही ठेकेदारालाही समजादून सांगितले असल्याची माहिती राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी रविवार, दि. २३ जून रोजी दिली.

''१८९३ साली शिकागो येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वधर्म परिषदेत स्वामी विवेकानंद यांच्यासह भारताकडून सहभागी झालेले दिवंगत वीरचंद राघव गांधी यांचे कुटुंब मुंबईतील चकला स्ट्रीट, मस्जिद बंदर येथे राहते. तेथे काही दिवसांपूर्वी लागलेल्या आगीमळे त्यांचे लागलस्या आगामुळ त्याच संपूर्ण घर जळून खाक झाले आहे. रविवारी 'म्हाडा'च्या कंत्राटदाराने तेथे पोहोचून घर

दरुस्त करण्याऐवजी पाडण्याच प्रयत्न केला. स्थानिकांनी तत्काळ मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यार्श संपर्क साधून, या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. त्यानुसार मंत्री लोढा यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट दिली

आणि पाहणी केली. यावेळी ते म्हणाले की ''शिकागो येथील ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार राहिलेल्या दिवंगत वीरचंद राघव गांधी यांचे घर हा वारसा आहे. तो आम्ही नष्ट होऊ देणार नाही. हे आम्ही ठेकेदारालाही समजावून सांगितले आहे. सोमवारी मंत्रालयात या विषयावर 'म्हाडा'च्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आर्ल असून, वीरचंद राघव गांधी यांचा वारसा जपण्यासाठी आणि त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी 'म्हाडा' आणि समाजघटकांचे पूर्ण सहकार्य घेतले जाईल,'' असे आश्वासन मंत्री लोढा यांनी दिले.

नूतनीकरण प्रस्ताव सादर करणाऱ्या - दरम्यान, अनधिकृत सूरू असलेली आरोप तक्रारदार साटम करत 'मुंबई पदवीधर' निवडणुकीच्या प्रचारार्थ ॲड. शेलार मैदानात



मुंबई, दि. २३ : प्रतिनिधी विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील प्रचार शिगेला शिवध्य मतिप्रस्थाताल प्रचार शिक्य निवास गोहीचला असून, मुंबई माजपचे वरिष्ठ नेते मैदानात उत्तरले आहेत. माजपचे मुंबई अध्यक्ष अँड. आशिष शेलार यांनी पर्ववार, दि. २३ जून रोजी घरोघरी जाऊन पद्वीधर मतदारांशी संवाद साधला. यावेळी माजी नगरसेविका हेतल गाला

यावळा माजा नगरसावका हतल गाला त्यांच्यासमवेत उपस्थित होत्या. रविवारी सुट्टीच्या दिवशी बहुताश मतदार घरी असतात. त्यामुळे त्यांची प्रत्यक्ष मेट घेत ॲड. आशिष शेलार यांनी भाजपचे मुंबई पदवीधरमधील उमेदवार किरण शेलार यांना विजयी करण्याचे आवाहन केले. सांताक्रूझमधील (वॉर्ड क्र. ९७) भावेश्वर स्मृती सोसायटी आणि एम. आर. कॉलनीमधील पदवीधर मतदारांशी त्यांनी संवाद साधला. ''किरण शेलार है एक व्हिजन घेऊन या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. मुंबईतील समस्या आणि पदवीधरांचे प्रश्न ते विधिमंडळात उचलून धरतील. एक उच्च शिक्षित, सुसंस्कृत लमेदवार भाजपने मैदानात लत

आढावा बैठक

भाजपचे मुंबई अध्यक्ष ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीच्या अनषंगाने सर्व वॉर्ड अध्यक्षांसोबत 'व्हिडिओ कॉन्फरन्स'द्वारे आढावा बैठक घेतली. या दोन्ही निवडणुकांसाठी मुंबईतील प्रत्येक विभागात सुरू असलेली तयारी आणि प्रचाराचा आढावा त्यांनी घेतला. तसेच मार्गदर्शनही केले

त्यामुळे किरण शेलार यांच्या नावासमोर एक हा पसंती क्रमांक लिहून त्यांना बहुमताने विजयी करा,'' असे आवाहन त्यांनी केले.

ॲंड शेलार यांनी मतदारांना किरण अंड. शलार यांना नतप्तराना विश्ले शेलार यांचा चतुःसूत्री जाहीरनामा भेट दिला. या निवडणुकीत मतदान नेमके कसे करावे, याविषयी मार्गदर्शन केले. तसेच वॉर्ड निवडणकीच्या तयारीचा आदावा घेतला

सकाळच्या भोंग्याला पुरून उरणारा भाजपचा वाघ

नितेश राणे समर्थकांकड्न बॅनरबाजी

मुंबई : 'सकाळच्या भोंग्याला पुरून उरणारा वाघ', अशी खाजी 'दै. सामना'च्या कार्यालयाबाहेर करीत भाजप आमदार नितेश राणे यांच्या समर्थकांनी त्यांना वाढदिवसाच्य वाढदिवस उत्साहात साजरा केला

'सकाळच्या 💡 📗 🧟 🕱 परून उरणारा वाघ', 'दमदार

लढणारे आमदार नितेश राणे', अशा आशयाचे बॅनर सामना कार्यालयाच्या समोर लावण्यात आल्याने दिवसभर त्याची चर्चा रंगली. 'उबाठा' गटाचे नेते संजय राऊत हे दररोज सकाळी पत्रकार परिषद घेतात. त्याला आमदार नितेश राणे जोरदार प्रत्युत्तर देत असतात. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी लावलेले बॅनर्स राऊतांनाच डिवचण्यांसाठी होते, अशी चर्चा राजकीय

अचलगच्छाधिपति श्री कलाप्रभसागरसूरीश्वर महाराजांनी दिल्या किरण शेलार यांना शुभेच्छा

मुंबई : विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील नाजपचे उमेदवार किरण खींद्र शेलार यांनी शनिवार, दि. २२ तून रोजी अचलगच्छाधिपति श्री कलाप्रभंसागरसूरीबर महाराज गुंची मेट घेतली. यावेळी त्यांनी शेलार यांना विजयासाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी राज्याचे कौशल्य विकासमंत्री तथा मुंबई उपनगरः पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा उपस्थित होते. यावेळी बोलतान चलगच्छाधिपति श्री कलाप्रभसागरसरीश्वर महाराज म्हणाले की 'मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार किरण शेलार हे ग्रष्ट्रप्रेमी आहेत. ते धर्मरक्षणाचे कार्य सदोदित सुरू ठेवतील. आम्ह र्व संतांचा आशीर्वाद त्यांच्यासोबत आहे. मंबर्डतील मतदारां त्मर्थन त्यांना मिळेल, जनता त्यांना मोठ्या बहुमताने विजयी ठरेल,'' अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या.



▶ मुंबई : देशाच्या एकात्मतेसाठी आणि अखंडतेसाठी सर्वस्वाचा त्याग करणारे भारतीय जवडराता संपत्पाचा त्यांच प्रजार नाताच जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना त्यांच्या हौताल्य दिनानिमित्त प्रदेश कार्यालयात विनम्र अभिवादन करताना केंद्रीय सह संघटनमंत्री शिवप्रकाशजी, माजी आमदार अतुल शाह, माजी आमदार राज के. पुरोहित, रवी अनासपुरे, राज्याचे भाजप संघटनमंत्री दिलीप कांबळे, माजी मंत्री शशिकांत कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

...म्हणून, गृहनिर्माण संस्थेचे समिती सदस्य होण्यास ठरले अपात्र : उच्च न्यायालय

मुंबई, दि. २३ : प्रतिनिधी ''दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेली व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेची समिती सदस्य होऊ शकत नाही,'' असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याच्या कारणास्तव विभागीय सहनिबंधकांनी तीन अपत्ये अपात्र घोषित केलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत हा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. हा मुद्दा चारकोप (कांदिवली) येथील एकतानगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवाशांशी संबंधित आहे, ज्याची गेल्या वर्षी समितीवर निवड झाली होती. उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचा सदस्य म्हणून या व्यक्तीला

अपात्र ठरवले आहे. . सहकारी

महाराष्ट्र कायद्यातील छोट्या कुटुंबाच्या नियमानुसार याचिकाकर्त्याला अपात्र ठरवण्यात आल्याचेही न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ७३(सी) मध्ये एखाद्या व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरवले जाणारे कारण नमूद करण्यात आले आहे. त्यानसार, ''दोनपेक्षा जास्त आहे. त्यानुसार, ''दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तीला गृहनिर्माण यंग्रोच्या यमिनीचा यत्रस्य होता ...ज्ञन्ना त्तामताचा सदस्य होता येणार नाही,'' असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

काय आहे प्रकरण? तीन अपत्ये असल्याच्या क एकतानगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील दोन सदस्यांनी पश्चिम उपनगर उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती सक्विकंडकांकडे एकतानगर होती. सहनिबंधकांकडे केलेले अपील यशस्वी न झाल्याने त्यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले. याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला की, ''महाराष्ट्र को–ऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट (एमसीएस ॲक्ट) मधील कलम ज्या अंतर्गत त्याला अपात्र घोषित करण्यात आले होते, ते कलम या कायद्यातू वगळण्यात आले होते. तिसरे मूल त्याचे जैविक नसून त्याला शैक्षणिक हेतूने त्याच्या घरी आणण्यात आले होतं,'' असा दावा त्यांनी केला.

मध्यवर्ती कार्यालयः ०९ वा मजला, चंदरमुखी, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४० ५५७५ ईमेल आयठी: investors@centralbank.co.in । वेबसाईट: www.

बॅकेच्या १७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

प्रकार पर प्रकार हो जाते. में इंट्रेस की अधिक इंडियाया भागभारतांची आतील व्यवसाधार कामभाज कारणावांतर, विकास की विकास की अधिक उद्देश प्रकार हो की इंडियाया भागभारतांची आतील व्यवसाधार कामभारतां हो कि उद्देश की उद्देश के उत्तर देश की उद्देश के अधिक की अधिक के उद्देश की उद्देश के उद्देश की अधिक उद्देश की अधिक

म आणि एकतित नका - तीवा पत्रज्ञावासाम् स्थान जीवा- एक्यान राज्यम्, ब्यानाः स्थान स्थान स्थान एक्स हम्मान प्रस्त म आणि एकतित नका - तीवा पत्रज्ञा अकाउन्द्रस्व संस्तान अस्तान कावायिकतिता बैकेच्या वजनकान आणि उपक्रमांवर सं ज्ञावा अहवात आणि ताळेबंद आणि अकाउन्द्रस्वर लेखापरिश्वकांचा अहवात बावर चर्चा करणे, मंजूर करणे आणि स्वीकारणे

बँकेच्या मंद्रळावर आरबीआय नामनिर्देशित संचालक म्हणून श्रीमती चारलता एस कर यांची नियुक्ती मंजूर करणे. बँकेच्या मंद्रळावर कार्यकारी संचालक म्हणून श्री. महेंद्र दोहरे बांची नियुक्ती मंजूर करणे

ान्याच्या राज्याच्य राज्याच्य करानून जा. १९०६ राहर याचा जिस्तुक्ता मजूर कराणे एका भाष्याक संवासकावी जिनवाणूक. व्यक्तवाची(एकपीओ(राईट्स, इश्स्यू वांसारख्या विविध माध्यमांद्वारे इक्विरी भांडवल एकूम रः. ५००० कोटीपर्यंत वार्त विचार कराणे.

पा: विद्वितों कॉन्फरविस्ता (शीसी) आणि हतर दृष्ठ भावत माध्यमांद्वारे (ओएसीएम) एचीएम आयोजित करणे: कोपीरट व्यव्हा मंत्रास्त्र (प्रत्यित) द्वारी पतित स्वेद्यासारण प्रीराजक क. १९/२०२३ दिनांक २२ तर्रव्य, २०२३ स्ववातीत त्वार तंशींका परिपरं आणि भरतीय प्रतिश्वात केणि विद्यासम्ब संक्ष्य (श्री) द्वारी पति दिनांक ० अधिनार, २०३५ रोजीला परिपरंकाल प्रतिश्वात वैक सरक्ष्याण प्रत्यक उपस्थितीत्वास, विशेषों कॉन्फरविस्ता (श्रीती) आणी हतर दृक भावत माध्यमंद्वारे (श्रीत्योण) क वार्षीक सर्वात्रामण का (एकीएम) आयोजित करोत आहे. महणून, अकामी एजीएमामध्ये स्वरस्य फक्त वरीते(औएसीएम द्वा उपस्थित उस्तु आणि रहमाणी रोठा शक्तात.

किया ने वालारी प्रभाव ("1900क मार्ग-) मार्गकार प्रथम Intelligence के किया है दिया से कालारी प्रभाव ("1900क मार्ग-) मार्गकार प्रथम है किया है है दिया है किया है किया

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे (चंद्रकांत भागवत) कंपनी सविव आणि अनुपालन अधिव

गोखलेपुलाच्या जोडणीची फत्त

मुंबई, दि. २३ : प्रतिनिधी अंधेरी पूर्व व पश्चिम यांना जोडणाऱ्या सी.डी. बफीवाला उड्डाणपुलाचा भाग सा.डा. बफावाला उड्डाणपुलाचा माग उचलून गोपाळकृष्ण गोखले उड्डाणपुलाच्या समांतर पातळीवर जुळवण्यासाठी 'हायड्रॉलिक जॅक' आणि 'एमएस स्टूल पॅकिंग'चा वापर करून जोडण्याची अतिशय आव्हानात्मक मोहीम मुंबई महापालिकेदारे आव्हानात्मक माहाम मुबद्ध महापातकद्वार यशस्वी करण्यात आली आहे, 'कॉक्रिट क्युरिंग'च्या कामानंतर दि. १ जुलै रोजी या दोन्ही पूलांचरील वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन आखण्यात येत असल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. अंधे री पूर्व आणि पश्चिमे च्या

वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा दुवा असलेल्या गोखले उड्डाणपूल आणि सी.डी. बर्फीवाला उड्डाणपूल यांच्या जोडणीसाठीची कामे वेगाने करण्यासाठी अतिशय नियोजनबद

दि. १ जुलैपासून वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन



पद्धतीने ही कामे सुरू आहेत. दोन्ही प्रलांच्या जोडणीसाठी आवश्यक असणाऱ्य जोडणीच्या काँक्रिटीकरणाचे काम झाल्यानंतर त्यापुढील सलग सहा तास पारुस न प्रदर्ण अपेक्षित व आवश्यक होते विशेष म्हणजे, हे काम पूर्ण झाल्यानंतर

या परिसरात त्यापुढील १२ तासांपेक्षा अधिक कालावधीदरम्यान पाऊस न पडल्याने काँकिटीकरणाचे व जोडणीचे काम विनाअडथळा करणे शक्य झाले. त्यामुळे या कामाला निसर्गाचीही साथ लाभली असे म्हटल्यास वावगे तरणार

असे जुळवले दोन उड्डाणपूल

अस जुळवल दान उड्डाणपूरा सी. डी. क्षेत्रीवाला उड्डाणपूरा क्ला बाजूला १,३९७ मि.मी. व दूसऱ्या बाजूला ६,५० मि.मी. वरच्या दिशेने उच्चलण्यासाठी 'हायझॉलिक जॅक' आणि 'एमएस स्टूल पॅकिंग'चा वापर करण्यात आला. त्याचबरोबर सी.डी. ब्योहीयाला उड्डाणपुलाखाली 'पेडेस्टल' (आधार देणारे खांब) वापरण्यात आले आहेत. एकूण दोन 'पेडेस्टल'चा आधार देत जोडणी करावयाचा भाग हा १,३९७ मि.मी.

या उड्डाणपुलाच्या गर्डस्वर उचलण्यात आला आहे. त्यासोबतच सहा नवीन बेअरिंगही त्या साच्यात बसविण्यात आल्या. 'पेडेस्टल'ला देण्यात आलेले 'बोल्ट' हे सी.डी. बर्फीवाला उड्डाणपुलाच्या पिलरशी जुळणे, हे अतिशय महत्त्वाचे आव्हान होते.

अवघ्या २ मि.मी. जागेच्या अंतरामध्ये अर्थार र नः । जान्या जारानयः अतिशय अचूकपणे हे दोन्ही 'पेडेस्टल' जुळवण्याचे आव्हान पूल विभागाचे अभियंता आणि सल्लागारांच्या तांत्रिक चमूने अतिशय नियोजनबद्धरीत्या व चमून आतंशय नियाजनबद्धरात्या व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जुळवून आणले. वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (व्हीजेटीआय), 'आयआयटी' आणि 'स्ट्रक्ट्रॉनिक्स कन्सल्टिंग इंजिनिअसं' या तांत्रिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली हे आव्हानात्मक काम पार पाडण्यात आले